

80-2 मूल-क्याच - Rs 2,32,500/- 8505-



Handwritten notes and calculations on the left side of the page:

35880
 4650
 11685
 35880

Handwritten notes and calculations on the right side of the page:

03AA 990429
 155 रु. 25-9-03
 34435
 6/12/03
 2579/03

Handwritten calculations and notes on the far left:

4660.00
 7200
 4732.00
 250
 89
 3.47
 4735.47

- बिक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज -

बिक्रेतागण-1-श्री दिनेश कुमार रामजी भाई पटल, 2-श्री शान्ति लाल रामजी भाई पटेल, पिता श्री रामजी भाई नागजी भाई पटेल, 3-श्री मति शकुन्तला बेन एम पटेल, पति श्री मुकेश कुमार एम. पटेल, जाति-पटेल, पेशा- बिक्रेता नं0-1 एवं 2 का व्यवसाय एवं बिक्रेता नं0-3 का गृह-स्वामिनी, साकिम-राजगंज रोड कतरासगढ़, पो0-कतरास, थाना-कत-रास, जिला-धनबाद के तरफ से आम-मोखतार श्री रामजी भाई नागजी भाई पटेल, पिता स्व0 नागजी भाई पटेल, जाति-पटेल, पेशा-व्यवसाय, साकिम-80/1 सम्राट नगर हुसानपुर अहमदाबाद, हाल-साकिम-पंचगढ़ी बजार, पो0-कतरासगढ़, थाना-कतरास, जिला-धनबाद।

Shree Developers
 Umesh Sharma
 Partner

Long

1059/03-05

Umesh Swarna
Rajgarh Katra Buzurg Anantnagar

31880/- (10000 x 5 + 1000 + 500 + 100 x 3 + 500 x 2 + 100)

W
1/7/03

Umesh

21 मजमाद परत

ड. 92-03-




राजगी मारि नाग जी मारि परत
राजगी मारि नाग जी मारि परत
राजगी मारि नाग जी मारि परत
राजगी मारि नाग जी मारि परत

6/12/07

72

राजगी मारि नाग जी मारि परत

1/4/03



राजगी मारि नाग जी मारि परत
राजगी मारि नाग जी मारि परत

21 मजमाद परत


ड. 92-03

73

1/4/03



82



03AA 990253

21/09/2018
5.92-03

-2-

जिसका आम-मोखतार संख्या-2820 दिनांक-4-12-02 ई० को निबंधन कार्यालय अहमदाबाद 'गुजरात' में निबंधित हुई है।


क्रेता :- श्री उमेश शर्मा, पिता स्व० बासुदेव शर्मा, जाति-बढ़ई, भारतीय। पेशा-व्यवसाय, साकिम-राजगंज रोड कतरासगढ़, पो०-कतरासगढ़ थाना-कतरास, जिला-धनबाद ।

Shree Developers
Umesh Sharma

Partner

लेख प्रकार- बिक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज।

मूल्य-2,32,500/-रुपये । दो लाख बत्तीस हजार पाँच, सौ रुपये । मात्र,



03AA 990252

--3--

21/09/2018 पर
5.92.03.

जमीन का विवरण-

जिला चौकी एवं अवर निबंधन कार्यालय धनबाद थाना-कतरास
अन्तर्गत मौजा-सलानपुर में हमलोगों का । बिक्रेतागण का ।
टिकुरी स्वत्व की खास । नीज । दखल की जमीन, मौजा-सलान-
पुर, मौजा नं०-262 खाता नं०-112 । एक सौ बारह । प्लोट
नं०-1148 । एक हजार एक सौ अढ़तालीस । गोड़ा-दो परि-
माण में से उत्तर-दक्षिण लम्बाई पुरब तरफ 64 फीट एवं पश्चिम
तरफ 64 फीट, तथा पुरब-पश्चिम चौड़ाई उत्तर तरफ 63 फीट
09 इंच एवं दक्षिण तरफ 38 फीट 03 इंच जिसका क्षेत्रफल-3264-
वर्गफीट, अर्थात् 7.48 डिसिमिल । सात दशमलव चार आठडिस-

Shree Developers
Umesh Sharma

Partner



2000
R\$ 1000
R\$ 1000

-4-

-मिल १ जमीन ईस दस्तावेज द्वारा आपको बिक्री किया।

जिसका चौहददी-

उत्तर : राजाड़िया बाजु,

दक्षिण : 12 फीट चौड़ा रास्ता

पूरुब : देता का नोज,

पश्चिम: विक्रेतागण का नोज मकान एवं 12 $\frac{1}{2}$ फीट चौड़ा रास्ता 1 कोम

Shree Developers
Umesh Sharma .

Partner

बिक्रीत जमीन का एक प्रति नक्शा ईस दस्तावेज के साथ संलग्न
कर लाल रंग से दर्शाया गया है।



Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

-5-

उक्त विक्रीत जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय के निबंधित केवाला दस्तावेज नं०-13319 दिनांक-22-9-1961 ई० को कतरासण्ड निवासी मुलजी गोगा भाई से कानजी नागजी एण्ड कम्पनी के नाम पर खरीदा जमीन है, जिसका अंवल कार्यालय-प्राधमारा से दाखिल-खारीज कराकर सलाना माल-गुजारी थोका नं०-794 में आदाय देते हुए विक्रि स्वत्व में स्वत्ववान होकर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते आ रहे है।

Shree Developers

Umesh Sharma.

Partner

100Rs.



रिजिस्ट्रार
5.12.03.

-6-

उक्त जमीन बिक्री हेतु धनवाद समाहरणालय राजस्व शाखा के अपर-समाहर्ता के जापांक-155 दिनांक-25-9-03. ई0 के द्वारा अनापत्ति का आदेश प्राप्त हुआ है।

मालिक जमींदार-धारण्ड तरकार
अंवल कार्यालय-बाघमारा,
सलाना मालगुजारी-4.54 स्वये।

Shree Developers
Umesh Sharma

Part...



21 मई 2013
3.32.00

-7-

चुंकि बिक्रय-पत्र का बिबरण यह है कि हमलोगो को संसारिक खर्च के लिए रुपये की अति आवश्यकता आ पड़ी है इसलिए बिबरण में दिये गये जायदाद को बिक्री करने के लिए आपसे प्रार्थना करने पर आप उसे खरीद करने के लिए राजी हुए इसप्रकार दोनो पक्षों की सहमति से उक्त जायदाद का समयोचित सर्वोच्च मूल्य- 2,32,500/- रुपये तय हुआ और उक्त मूल्य में ही उक्त जायदाद को आपको बिक्री कर मदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया।

Shree Developers
Umesh Sharma .
Partner



21/09/2019 पर
5.12.03.

-8

उपरोक्त जायदाद पर हमलोगो का जिस प्रकार का हक-अख्तियार दावी-दावा आदि था आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त जायदाद पर खास जोत कर प्रजाबिली के द्वारा वास आबाद कर तथा मकान आंगन हुआ बगान-बगिचादि तैयार कर नीज वसवास या किराया बन्दोबस्त कर अपना इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्व प्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर बंश परम्परा से पुत्र-पौत्रादि

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner



21/07/2023
5.92.03

- 9 -

एवं वारीसन के साथसदा के लिए भोग टखल करते रहे इसमें हमलोग या हमलोगो के वारीसन किसी प्रकार का वजुर या एतराज नही कर सकता है और करने पर भी वह कानुन के मुताबिक नामंजुर होगा।

उपरोक्त जायदाद का सलाना मालगुजारी मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे।

Shree Developers
Umesh Sharma .

Partner

20 Rs.



2000/10/10/10/10
5. 12. 03.

410-

उपरोक्त जायदाद हमलोगो का खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके बंशज को क्षति पहुँचे तो हमलोग या हमलोगो के वारीसन क्षतिपुरण का देनदार होगा या होंगे।

अतः हमलोग अपना-अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा ल्यये फाकर एवं समझ-बुझकर यह विक्रय-पत्र सम्पादन कर दिया कि समय पर कामआवें। ईति दिनांक-6-12-2003.

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner



21/07/2003
5.12.03.

410-

उपरोक्त जायदाद हमलोगों का खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके बंशज को क्षति पहुँचे तो हमलोग या हमलोगों के वारिसन धतिपुरण का देनदार होगा या होंगे।

अतः हमलोग अपना-अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा स्वये पाकर एवं समझ-बुझकर यह विक्रय-पत्र सम्पादन कर दिया कि समय पर कामआवें। ईति दिनांक-6-12-2003.

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner



21/11/21
5.12.03

-11-

दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।

Shatughan prasad Ray
Dhanbaj
L. No-21995
6/12/03

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक दूसरे की हुबहु और सच्ची प्रति लिपि है।

-गवाहगण-

21/11/21
5.12.03


- 1- Kishor Kumar Sharma
at Anandpur
Station Road
Karnal
6/12/2003
- 2-

उकक-

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

21/11/21
5.12.03

1000RS.



श्री देवदत्त शर्मा
5.4.03.

समाहर्ता धनबाद द्वारा दिनांक-1-9-03 ई0 से भू-सम्पत्ति
के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई है तदनुसार न्यूनतम मूल्य :
2,32,500/- रुपये होता है।

स्टाम्प पूर्व से निकाला हुआ है, अतः कमी स्टाम्प शुल्क-
4000/- रुपयेकेइस दस्तावेज के साथ संलग्न की जाती है।

Shree Developers
Umesh Sharma

Partner


Seller: (1) Sri Dinesh Kumar Ramjee Bhai Patel, (2) Sri Shan Lal Ramjee Bhai Patel s/o Sri Ramjee Bhai Nag Bhai Patel, (3) Smt. Shakuntala Wen M. Patel w Sri Mukesh Kumar M. Patel, of Rajganj Road, Katras Garh, P.S. Katras, Dist. Dhanbad.

Seller No. 142 - Power of Attorney: - Sri Ramjee Bhai - Nagjee Bhai Patels/o late Nagjee Bhai Patel, o Rajganj Road, Katrasgarh, P.S. Katras, Dist. Dhanbad.

Purchaser: - Sri Umesh Sharma s/o late Basudeo Sharma, o Salanpur Panchgarhi Bazar, P.S. Katras, Dist. - Dhanbad.

Schedule: - Mouzei Salanpur No. 262, P.S. Katras, under Khata No. 112, Plot No. 1148, (Part) Area 7.48 - Decimals.

shown in colour red.



21/01/2024
5.12.03

Shree Developers

Umesh Sharma,

Partner

marked by
SH



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पंजी II प्रति

June 21, 2019

भाग वर्तमान	11	पृष्ठ संख्या	2440										
जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	बाघमारा	हलका का नाम	हलका-04	इस्टेट का नाम	झारखंड				
मौजा का नाम	सलानपुर	होलिंग संख्या	2440	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	262	खाता का प्रकार	---				
श्री उमेश शर्मा, पिता-स्व0 बसुदेव शर्मा, जाति-													
खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार							लगान	सेस		
112	1148	0 ऐ 7.48 डि 0 हे	नामांतरण दा0 खा0 वाद स0 599(4) 2009-10 अ0 अ0 बाघमारा के आदेशानुसार पुराना ज0 स0 794 से घटाकर दर्ज किया गया							6	8.7		
	कुल परिमाण	0 ऐ 7.48 डि 0 हे											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	सान से	सात तक	लागत बकाया	लागत धाम् सान	रोड सेस बकाया	रोड सेस धाम् सान	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस धाम् सान	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस धाम् सान	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस धाम् सान
05/12/2009	377655	0000	0000	66	6	16.5	1.5	33	3	33	3	13.2	1.2

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

No Data Found

नया टेमें



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।

Shree Developers
Umesh Sharma,
Partner

पंजी II झारखंड सरकार रजिस्ट्रार कार्यालय

V

2262

6025044

सतवाड

वा/प/म/र/

सीमांत/य/र/

262

112	1148	रकम 7.48 लो
-----	------	-------------

श्री उमेश शर्मा पिता रमण कासंदेव शर्मा

W/P

		2009-10	2012-13
		2011-012	
	10.00	30.00	10.00
	2.50	7.50	2.50
	5.00	15.00	5.00
	5.00	15.00	5.00
	2.00	6.00	2.00
	<u>24.50</u>	<u>73.50</u>	<u>24.50</u>

		30.00	10.00
		7.50	2.50
		15.00	5.00
		15.00	5.00
		6.00	2.00
		<u>73.50</u>	<u>24.50</u>

98.00 (अठ्ठावनके रूपमें) मीर

शुभ

14/3/13

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रयतों) का नामांतरण (दाखि-खारिज) दिखानेवाला शुद्धिपत्र


पंजी 27 में नामांतरण केस संख्या	गांव	धाना और धाना संख्या	नामांतरण से सम्बद्ध अभिवृत्ति की संख्या	नामांतरण करनेवाला श्राद्धि और आवेश की तारीख	नामांतरण का कारण से होना विकी दान विषय उत्तराधिकारी बटवारा हुआ?	नामांतरण से प्रभावित विनिमय का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हलका पंजीकृत तारीख को शुद्ध की गई?	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U.S. 2003/100	वामनापुर	5-37-262	3264	3264	3264	06.12.0	पूराना मूला कान जो मराना ली 1970 1970- कानका U.S. 2003/100 को जो मराना श्री उमेश शर्मा जिसके से कानका से अंतर का अंतर जो मराना कानका जो मराना कानका अंतर जो मराना जिसके से अंतर	22.6.2003 को जो मराना ली 1970 को जो मराना ली 1970	श्री उमेश शर्मा

कर्मचारी हलका सं० को जानकारों और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।
 2003
 श्री उमेश शर्मा / अचल अधिकारी / अचल बाधमान
 श्री उमेश शर्मा / अचल बाधमान

Shree Developers
 Umesh Sharma
 Partner

श्री. Ramon Sale Gobindpur 388000 & 15520 / 1892

43
416



निकयन नियम 21 के अधीन और छाटानागपुर
कारमकासी इन्स्ट की कार्ट के अधीन
जा कहव है और इन्स्ट का 1899
की अनुसूची 1 के अधीन
व्यक्त रूप से है। अथवा इन्स्ट
नखदी से विमुक्त है वी स्टम्प - शुल्क अपेक्षित
नहीं है।

तत्कालीन वर्गीकृत जमीन की कृषि योग्य धरिका पत्ती
के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शुल्क से कम नहीं है।

05AA 243465


क्रमा 4.6.12

निचले प्रदाधिकारी
4-6-2012

दस्तावेज जांच किया
काम 4 जांच किया

अबल अधिकारी... से प्राप्त सूची के
अनुसार दस्तावेज में दर्शाया गया
नम्बर ... के दाता नं...
निविद्ध खाते से काहर है/सूची बन्द नहीं है

4.6.12



11/9/12

Prepared

11640200
25 2050
or 294

11643044

4.6.12

-: विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज :-

केवाला दाता:- श्री राम स्वल्प तिवारी, पिता स्व० केशो तिवारी,
जाति-ब्राह्मण, पेशा-कारोवार, साकिन-धोवा टाँड़, थाना-बैक-मोड़,
जिला-धनबाद, झारखंड { भारतीय } उक्त दाता के तरफ से आम-मोखतार
श्री अनन्त कुमार सिंह, पिता स्व० बीरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, पेशा-
व्यवसाय, साकिन-सुदामडीह, पो० एवं थाना-सुदामडीह, जिला-धनबाद
जिहाका आम-मोखतार संख्या-115 दिनांक-2-5-2012, ई० को
गोबिन्दपुर सब रजिस्ट्री औपिस से रजिस्ट्रीकृत।

Shree Developers
Vansh Sharma
Partner

5000Rs



-2-

केवाला भूहिता:-श्री उपेन्द्र शर्मा, पिता स्व० बासुदेव शर्मा, जाति-बढ़ई, पेशा- बढ़ई.
नाकिन-लोयाबाद, हलिया मोड़, पो०-लोयाबाद, थाना-लोयाबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
॥ भारतीय ॥

विक्रय-पत्र ॥ केवाला दस्तावेज ॥

मूल्य-3,88,000/-रुपये ॥ तीन लाख अठ्ठासी हजार रुपये ॥ मात्र
सलाना मालगुजारी-25 पैसा, मालिक जमींदार-झारखंड
सरकार, अंचल कार्यालय-गोबिन्दपुर।

बिबरण जमीन:-जिला धनबाद चौकी सदर रजिस्ट्री ऑफिस धनबाद सब रजिस्ट्री ऑफिस
एवं थाना-गोबिन्दपुर अन्तर्गत "आमाघाटा" मौजे में रैयती स्वत्व की जमीन, मौजा नं०-
170 खाता नं०-78 ॥ अठहत्तर ॥ सामिल प्लोट नं०-1661 एवं 1662 अंश रक्का-05,
कट्ठा ॥ पाँच कट्ठा ॥ यानि-8.25 डिमिल जमीन यह केवाला दस्तावेज के द्वारा
आपको बिक्री किया, जो यह केवाला दस्तावेज के साथ नत्थी की गई नक्शा में "लाल"
रंग से दिखाया गया है। उक्त बिक्रीत जमीन अन्य सड़क पर आवासीय है।

जिसका चौहददी

उत्तर :- प्रितु कुमारी,
दक्षिण :- भारती शर्मा,
पूरब :- 17 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता,
पश्चिम:- पुरातन पतित।

Shree Developers
Umesh Sharma

Panna



झारखण्ड JHARKHAND

A 686893

Handwritten signature
4/6/12

-3-

उक्त जमीन धनबाद रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ 17-8-1989 साल का 9434, नं0 केवाला दस्तावेज के द्वारा मेरे नीज नाम से केवाला खरीदा हुआ खान दखल की जमीन है, तथा खरीद कर नीज दखल में भोग दखल करते हुए अंचल कार्यालय-गोविन्दपुर के दाखिल-खारीज मुकदमा संख्या-443 § § 2005-06, के द्वारा अपने नाम से दाखिल करवा कर जमाबन्दी संख्या-400 में सलाना मालगुजारी आदाय देते हुए उक्त जमीन सम्पूर्ण निर्दाय और निर्विवाद हालत में आपको बिक्री किया।

उक्त जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं है जैसे गैर मजस्बा भूदान वन-विभाग तथा आदिवासी खाता का नहीं है, साथ ही यह दस्तावेज के साथ अंकित कथा से दाता एवं ग्रहिता सन्तुष्ट तथा सहमत है।

चुंकि बिक्रय-पत्र का बिबरण यह है कि मूझे संसारिक खर्च के लिए रुपये की अति आवश्यकता आ जाने से उक्त जमीन का सम्बोधित सर्वोच्च मूल्य-3,88,000/- रुपये धार्य कर आपको बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखल कार किया तथा दखल दिया।

उपरोक्त जमीन पर मेरा जिस प्रकार का हक-अख्तियार दावी-दावा आदि था आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त जमीन पर मकान आदि तैयार कर नीज

Shree Developers
Umesh Sharma

Partner

Handwritten signature
4-6-12

Anand Kumar
4/6/12

-5-

अतः हम अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह विक्रय-पत्र सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें।

ईति दिनांक-2-6-2012

ग्रहिता का छाया चित्र



Upender Sharma
4/6/12



प्रमाणित किया जाता है कि दाता के तरफ से आम-मोखतार एवं ग्रहिता का छाया चित्र दस्तावेज में लगा है के बाये हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है एवं दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।


K. Manojel
Advocate
Dhanbad
E No-1638/91

-: गवाहण :-

Umesh Sharma,
Late Basudeo Sharma,
Rag gang Raod katraah
Dhubud -
4-6-12

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

② Vishnu with post
Shri/Chokri Sur by
Mppo- Dhubud
4-6-12



Umesh Sharma
4/6/12

-4-

वसूला या किराया बन्दोबस्त कर अपना इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्व प्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर बंश परम्परा से पुत्र-पौत्रादि एवं वारीजन के साथ सदा के लिए जोग दखल करते रहे इसमें हम या हमारा वारीजन किसी प्रकार का बचुर या उत्तराज नहीं कर सकता है और करने पर भी वह कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं होगा।

उपरोक्त जमीन का सलाना मालगुजारी मालिक जमींदार द्वारा खंड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे।

उपरोक्त जमीन मेरा खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तरण आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-तय्योग या हस्तान्तरण आदि वास्तु जाय और उसके आपको या आपके बंश को क्षति पहुँचे तो हम या हमारा वारीजन भक्ति वरुण का देनदार होगा या होंगे।

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner



निबंधन विभाग, झारखंड
गोविंदपुर
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 43

Token Date/Time: 04/06/2012 15:27:09

Document Type	Sale Deed	Presenter	Anant Kumar Singh	Date of Entry	04/06/2012
Presenter' Name & Address	Sudamdih, Dhanbad	DOE		Total Pages	16
Stampable Doc. Value	388000	Stamp Value	15520	Book	I
Document Value	388000	Serial No.	0	CNO/PNO	
Special Type					
Remarks / Other Details					

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
GOVINDPUR	170	0	AMAGHATA	78	1661,1662			H_HOLD	8.25 Decimal	387750

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	Address
1	Power Holder	Anant Kumar Singh	Late Birendra Singh	Business	Other		sudamdih, Dhanbad
2	VENDEE	Upendra Sharma	Late Basudeo Sharma	Business	Other		Loyabad, Dhanbad
3	Identifier	Umesh Sharma	Basudeo Sharma	Business	Other		Rajganj, Road, Katras, Dhanbad
4	Witness1	Umesh Sharma	Basudeo Sharma	Business	Other		Rajganj, Road, Katras, Dhanbad
5	Witness2	Bishwanath Prasad Singh	Late Chandra Sen Singh	Business	Other		sudamdih, Dhanbad

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	LL	2.50
2	PR	0.94
3	A1	11,640.00
4	SP	240.00
Total		11,883.44

Anant Kumar Singh

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

निबंधन पूर्व सारांश में इंप्ट फार्म के अनुरूप डाटा इंद्रि की गई है।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

डाटा इंद्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त Anant Kumar Singh ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी पहचान Umesh Sharma पिता Basudeo Sharma निवासी Rajganj road, Katras, Dhanbad पेशा Business ने की।

निबंधन प्रविष्टिकर्ता का हस्ताक्षर


04/06/12

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर (धनबाद)

दाखिल खारीज मु० संख्या 776 (प्र)12-13
आदेश फलक

आवेदन को दिनांक 17/7/12
आदेश को दिनांक 25/7/12
निर्गत को दिनांक 21/7/12

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
06.12	<p>आवेदक / आवेदिका / श्री / श्रीमती <u>उपेन्द्र शर्मा</u> पिता / प्रति <u>क. व. 0 बाबुदेव शर्मा</u> साकिम <u>लोभाबाद</u> थाना <u>लोभाबाद</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक / आवेदिका ने मौजा <u>आभावावा</u> मौजा नं० <u>170</u> खाता नं० <u>78</u> प्लॉट नं० <u>1661, 1662</u> रकवा <u>8.25 अ०</u> दलील सं० <u>1892</u> दिनांक <u>04.06.2012</u> के द्वारा श्री / श्रीमती <u>राम स्वल्प सिवारी, पिता स्व० केशी लियारी</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें तथा इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>17.7.12</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right"><i>(Signature)</i> अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	<p><i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i></p> 
27.7.12	<p>अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने लिखित आपत्ति नहीं दी है। हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। आदेशार्थ रखे।</p>	

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner



विशेष अमानक संख्या 5-40

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रियल्टी) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धी

जिला : धनबाद

अनुपण्डल : धनबाद सर्किल

अंचल : गोविन्दपुर

हल्का

VI

इस्टेट का नाम : झारखण्ड

क्रम संख्या	पंजी 27 में नामान्तरण का संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभिधारि की संख्या	गोान्तरण मंजुर कारोनाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान सनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावी बन सनियम का पूरा खारा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गई	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क्रमांक गुण्डा-776 VI.12.13	अमावारा	गोविन्दपुर 170	खाता नॉट रक्वा लगान 78 1661 8.25 स. 1.00 1662	अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर	निबन्धित दलील सं० : 1892 दिनांक : 04.06.2012 मूल्य 388 500/-	पुराना रयत : श्री राज हररूप तिवारी नया रयत : श्री उपेंद्र शर्मा पिता स्व० बसुदेव शर्मा	हल्का - गोविन्दपुर	

जापांक संख्या०..... गा०..... को जानकारी और आवश्यक काराव ई को लिए भेजी जाती है।

कर्मचारी हल्का सं०.....

VI

को जानकारी और आवश्यक काराव ई को लिए भेजी जाती है।

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

Partner

24/11/11

नाम **वसुध**
 खेसरा संख्या **170**
 वरसीद मालगुजारी
 फरद मालकी / फरद रैयती
 नाम रैयत मय वल्लिदयेत जमाबन्दी
 वो सकुनत नम्बर **6032921**

खाता संख्या	खेसरा संख्या
78	1661, 1662 रकम 8.45

अराजी नकदी अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली
की उपेन्द्र शर्मा पिता - श्री वासुदेव शर्मा

जोते का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) भोजूदा साल कम

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल गुजारी } (नकदी) (भावली)	1.00					2013
सेस	2.00					1.00
*सूद	5.00					2.00
मुतफरकात	2.00					2.45
मीजान						

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मोतालबा	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष		
माल गुजारी } (नकदी) (भावली)						2013	
सेस						1.00	
*सूद						2.00	
मुतफरकात						2.45	
मीजान अदायकारी							

- (1) मीजान कुल (लफजों में) **2.45**
- (2) नाम देहिन्दा -
- (3) कुल बकाया - **2.45**

दस्तखत वा चारीख अजला तफसील कुल

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय एसा बकाया पर जिन पर कि सर्विकेट कमी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

NCCF-2010

Shree Developers
Umesh Sharma
 Partner



726 (19/12/13)

Seller:- Sri. Ram Swarup Tiwari s/o Late Kesho Tiwari
of Dhowatand, p.s.:- Bam More, dist.:- Bhanbad. Ref
by Attorney:- Sri. Anant Kumar Singh s/o Late
Birendra Singh of Sudamdih, p.s.:- Sudamdih,
dist.:- Bhanbad.

Purchaser:- Sri. Upendra Sharma s/o Late Basudeo Sharma
of Loyabad Hatia more, p.o. & p.s.:- Loyabad,
dist.:- Bhanbad.

Schedule:- Mouza:- Amaghata, no.:- 170, Khata no.:- 78,
Plot no.:- 1661 & 1662, Area:- 5 Katha.

Boundary:- North:- Smt. Pritu Kumari,
South:- Smt. Bharti Sharma,
East:- 17'0" wide prop. road,
West:- Puratan Patit.



Traced by:-

Bhujanda
Kishor

4/6/12

(As to Scale)

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner



भारत सरकार

भारखंड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पंजी II प्रति

August 5, 2019

भाग वर्तमान	1	पृष्ठ संख्या	447	अचल का नाम	गीविन्दपुर	हलका का नाम	हलका-06	इस्टेट का नाम	भारखंड
जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	तौजी संख्या	0	शाना नम्बर	170	खाता का प्रकार	शैथिली
मौजा का नाम	आमाघाटा	होलिडा संख्या	447 443						

श्री उपेन्द्र शर्मा, पिता-वासुदेव शर्मा, जाति-

परिवर्तन के लिए प्राधिकार

खाना नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	दा. खा. मू स 7796) 12-13 के आदेशानुसार दर्जकियागया है	लगाव	सेस								
15	1216	0 कठोर 25 डि 0 है		1	1.45								
	कुल परिमाण	0 कठोर 25 डि 0 छ.											
तारीख	प्राप्ति पर संख्या	साल से	साल तक	नागत बकाया	नागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
08-05-2019	0163158820	2012-2013	2019-2020	7	1	1.75	0.25	3.5	0.5	3.5	0.5	1.4	0.2

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

No Data Found

अवस्था देखें

BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रमाण केवल प्रार्थ की जानकारी के लिए है

Shree Developers

Vansh Sharma

Partner

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल | नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

गोविन्दपुर | आमाघाटा | 170 | श्री उपेन्द्र शर्मा

फरद मलकी / फरद रैयती

Page No. : 447

V नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

Vol. No. : 1

वो सकुनत नम्बर।

Receipt No. : 0163158820

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
15	1216	0 कठा 8.25 डिसमील 0 छटाक

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2019- 2020)
		तीन वर्ष से ज्यादा (2012-2013) - (2015-2016)	३ रा वर्ष (2016- 2017)	२ रा वर्ष (2017-2018)	१ ला वर्ष (2018-2019)	
माल	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(नकदी)	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
गुजारी	0.50	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
(भावली)	0.50	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
सेस	..	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
..	2.45	9.80	2.45	2.45	2.45	2.45
सूद	..					
मुतफरकात	..					
मीजान						

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2019-2020)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा (2012-2013) - (2015- 2016)	३ रा वर्ष (2016-2017)	२ रा वर्ष (2017-2018)	१ ला वर्ष (2018-2019)		
माल	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
(नकदी)	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
गुजारी	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	
(भावली)	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	
सेस	..	0.80	0.20	0.20	0.20	
..	9.80	2.45	2.45	2.45	2.45	

Shree Developers

Umesh Sharma
Partner

NOTARY
DHANBAD



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : ba7dac0283a2f8aa028e

Receipt Date : 09-Aug-2021 12:49:35 pm

Receipt Amount : 20/-

Amount In Words : Twenty Rupees Only

Document Type : Affidavit

District Name : Dhanbad

Stamp Duty Paid By : UMESH SHARMA AND OTHERS

Purpose of stamp duty paid : AFFIDAVIT

First Party Name : UMESH SHARMA AND OTHERS

Second Party Name : NA

GRN Number : 2106886979

10 AUG 2021

Sl. No. 04 Date.....

- This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

BEFORE: THE NOTARY PUBLIC, DHANBAD.


AFFIDAVIT

contd..2



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



We (1) Unesh Sharma . S/o. Basudeo Sharma, Kangi Nag Ji And Company Quarter No.25, Rajasthani Dhamsala, Rajganj Road Katrasgarh, Akashkanali Katrasgarh, Dhanbad, Jharkhand - 828113, and (2) Upendra Sharma S/o. Basudeo Sharma , Shree Hari Residency 3rd Floor Flat No.308, Katras Road, Vikash Nagar, Bank More, Near Chhath Talab, Dhanbad, Jharkhand -826001, do hereby solemnly affirm on oath and declare as follows :-

1. That, we are the Partners of " SHREE DEVELOPERS" Peoject name "SAI ENCLAVE" Office Add-Babudih, Dhanbad, Anchal Dhanbad, District Dhanbad, State Jharkhand.
2. That, we are the owner of landed property i.e.
Unesh Kumar - Mouza Salanpur, Katras No.262, Khata No.112
Plot No.1148 Area 7.42 decimals, butted and bounded as
Borth - Rajgariya Babu North - 12 feet Wide Road
East - Purchaser Niz West - 12½ wide Road.
(2) Upendra Sharma - Mouza Amaghata, Mouza No.170, Khata No.78, Plot No.1661 & 1662 Area 5 Kathas within P.S. Govindpur, butted and bounded as :-
North - Pritu Kumari South - Bharti Sharma
East - 17 feet wide Road. West - Paratan Patit.
3. That, the above landed properties total value of Rs. 70,00,000/- (Rupees Seventy Lacs) only
4. That, the statements made above are true to the best of our knowledge, believe and information and we have concealed nothings.



contd..2

We Swearing this affidavit to produce it before the authority concerned for needful.

Verification

Solemnly affirmed before me by the deponent who is duly identified by Sri N.P.Singh Advocate, Dhanbad.

The statements made are true to our knowledge and believe. we sign this verification here at Dhanbad on 09/08/2021.

Umesh Sharma
(1) UMESH SHARMA


Upekha Sharma
(2) UPEKHA SHARMA

(Deponents)

Identified by:

[Signature]
Advocate. 10.8.21

Notary Public, Dhanbad.



[Signature]
NOTARY
DHANBAD

10.8.2021

Authorised
d/s (8) (1) (a) (8) of the Notaries
Act 1952 (Act No. 53 of 1952)

Received by
Fiscal Dept
09/07/2020



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-JH30378876488901S
Certificate Issued Date : 22-Jul-2020 02:13 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ jhshcil01/ DHANBAD/ JH-DB
Unique Doc. Reference : SUBIN-JHJHSHCIL0145768111127750S
Purchased by : SHREE DEVELOPERS
Description of Document : Article 45 Partition
Property Description : PARTNER RETIREMENT DEED
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : SHREE DEVELOPERS
Second Party : AS APPLICABLE
Stamp Duty Paid By : SHREE DEVELOPERS
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

Subin Jharkhand

Shree Developers

www.shree.com

23/7/2020

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

0002283891

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shoilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

DEED OF PARTNERSHIP

THIS DEED OF ADMISSION CUM RETIREMENT made at Dhanbad this 22nd day of JULY 2020, in the year Two Thousand Twenty BETWEEN

Sri BISHWANATH PRASAD SINGH, son of LATE CHANDRASEN SINGHJ, By caste Hindu, By occupation business, resident Flat No.301, 2nd Floor, SOUMAY VIHAR APARTMENT, LUBY CIRCULAR ROAD, Dhanbad Dist. Dhanbad, hereinafter referred to as the old partner (which terms so far as the context will include his/ her heirs successors and assigns)

Sri JITENDRA PRASAD S/O SRI BANDHU PRASAD, By caste Hindu, By occupation business, resident at QTR NO. M/494 SUDAMDIH RIVER SIDE, NEAR TWO BETWEEN RAILWAY SIDE, CHELYAGI P.O. SUDAMDIH. Dist. Dhanbad, hereinafter referred to as the Retiring partner (which term so far as the context will Retire include her heirs successors and assigns).

Sri PAPPUKUMAR MISHRA son of Sri BALRAM MISHRA, by caste Hindu, by occupation business, resident at QTR NO. M/938 SUDAMDIH RIVER SIDE, NEAR TWO BETWEEN RAILWAY SIDE, CHELYAGI, P.O. SUDAMDIH. Dist.- Dhanbad, an hereinafter referred to as the Retiring Partner (which terms so far as the context, include her heirs successors and assigns).

Sri UMESH SHARMA, aged son of LATE BASUDEO SHARMA, By caste Hindu, By occupation business, resident at RAJGANJ, P.O. KATRASGARH, Dist. Dhanbad, hereinafter referred to as the existing partner (which term so far as the context admit include her heirs successors and assigns.)

Sri UPENDRA SHARMA, aged son of LATE BASUDEO SHARMA, By caste Hindu, By occupation business, resident at SHREE HARI RESIDENCY, 3rd FLOOR, FLAT NO-308, KATRASROAD, VIKASINAGAR, DHANBAD Dist. Dhanbad-826001

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

*Sri Bishwanath Prasad Singh
Sri Jitendra Prasad Singh
Sri Pappu Kumar Mishra*

hereinafter referred to as the NEW partner (which term so far as the context admit include her heirs successors and assigns.)

AND WHEREAS by deed of partnership dated 17th day of APRIL, 2017 the confirming partners, the retiring partner agreed to start and carry on business as purchase & sale of Land & Building, Real estate Business & Civil Construction including Road construction in the firm name and style of M/s. "M/S. SHREE DEVELOPERS" on the terms and conditions therein contained and whereas it was Sri Bishwanath Prasad Singh, Sri Jitendra Prasad and Sri Pappu Kumar Mishra to retire from the partnership from the 22ND JULY, 2020 and the Confirming Partner and new partner Sri Upendra Sharma shall continue the said business hereafter carried on by parties hereto in firm name and style of M/s. "22ND JULY, 2020" and the the business carried on by the parties hereto in the firm name and style of "M/S SHREE DEVELOPERS" as a going concern from the 22ND JULY, 2020 and it is agreed by and between the parties hereto as follows:

1. Sri BISHWANATH PRASAD SINGH AND SRI JITENDRA PRASAD and PAPPU KUMAR MISHRA the retiring partner has been relieved from the partnership on 22ND JULY 2020 ;
2. The continuing partners have settled & agreed to pay to the retiring partner in full and final settlement of the books of account and goodwill.
3. The continuing and retiring partners have agreed to prepare trading, profit and loss account and balance sheet as on 1st day of April, 2021.
4. The continuing partners and the retiring partner have mutually agreed and have settled the payment of GST, Sales-tax and Income-tax liabilities which may arise upto 1st April, 2020., i.e. during continuation of old partnership period.
5. The confirming partner and the incoming partner shall be free to use the firm name and style of the business to be carried on by them as aforesaid.

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner

Partner with an Bank
Director Agent
0.
Umesh Sharma - Partner

The continuing partner and the incoming partner shall be free to collect all the assets of the late partnership business and to demand for recovery, and give full and effect due or owing to or belonging to the earlier partnership and to settle all accounts, release any of compelling payments or delivery thereof and for the purpose aforesaid on any of them, the retiring partner will give full co-operation to the continuing & new incoming partner and give signature which may be required in future for the said purpose.

7. That the principal place of business is and shall be at "BASUDEV BHAWAN" NEAR CHATT TALAB, VIKAS NAGR, MATKURIA Dist. - Dhanbad (Jharkhand)826001, but it can be shifted to any other place or places and its branch or branches can be opened and closed as and when considered mutually beneficial by the partners in future.
8. Each party shall sign, execute and do such documents, deeds and things for which the other party shall be responsible for completely effecting the provision hereof. The continuing partner will share profits and loss in future as follows:

(a)	SRI UMESH SHARMA	50 %
(b)	SRI UPENDRA SHARMA	50 %
9. Each partner shall be paid monthly salary of Rs. 25000/-
10. That the interest @ 12% per annum on the excess capital contribution or deposits or advances if any by any partner shall be credited to his personal account on the last day of the accounting year before any division of profits is made and it shall be payable on demand with interest
11. That the bank account, if any, shall be operated by the party of the first part and existing part jointly or severally as may be mutually settled

Shree Developers
Umesh Sharma,

Partner

between them.

12. That save the matters provided for in this deed of partnership, the partnership shall be governed by the Indian Partnership Act, 1932 and the rules made there under or under any other law for the time being in force.

We, the above partners do hereby agree to all the terms and conditions stated above without any duress, compulsion or undue influence with our own sweet will and after fully understanding the terms of this deed of partnership and bind ourselves, our heirs, assignees and legal representatives in witness whereof, we do hereby put our hand on this 1st day of April, 2018, in the presence of the following witnesses:

WITNESSES

9
4/1/2018
Narain Kumar

1) BISHWANATH PRASAD SINGH
(RETIREING PARTNER)

Bishwanath Prasad Singh

2) JITENDRA PRASAD
(RETIREING PARTNER)

Jitendra Prasad
Jitendra Prasad

3) PAPPU KUMARMISHRA

Pappu Kumar Mishra
(RETIREING PARTNER)

4) UMESH SHARMA

Umesh Sharma

5) UPENDRA SHARMA

Upendra Sharma

Shree Developers
Umesh Sharma
Partner